



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक  
WEEKLY

सं. 19 ] नई दिल्ली, सितम्बर 19—सितम्बर 25, 2004, शनिवार/भाद्र 28—आश्विन 3, 1926  
No. 19 | NEW DELHI, SEPTEMBER 19—SEPTEMBER 25, 2004, SATURDAY/BHADRA 28—ASVINA 3, 1926

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके  
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4  
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश  
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 6 सितम्बर, 2004

का०नि०आ० 132.—केन्द्रीय सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उप-नियम (4) के अनुसरण में गुणता आश्वासन महानिदेशालय के निम्नलिखित कार्यालयों को, जिनके 80% कर्मचारीवृन्द ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करती है :—

1. वरिष्ठ गुणता आश्वासन स्थापना (सामान्य भंडार),  
डाकघर पजहावनथंगल, चेन्नई-600114
2. गुणता आश्वासन नियंत्रणालय (लघु शस्त्र),  
डाकघर इच्छापुर, नवाबगंज,  
24 परगना (उत्तर),  
पश्चिम बंगाल-743144

[सं० 2(1)/98-रक्षा (रा०भा०-2)]

तपन राय, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 6th September, 2004

**S.R.O. 132.**—In pursuance of Sub-rule (4) of the Rule 10 of the Official Languages (Use for official purposes of the Union) Rules, 1976, the Central Government hereby notifies the following offices of Directorate General of Quality Assurance, 80% staff whereof has acquired working knowledge of Hindi :—

1. Senior Quality Assurance Establishment (G.S.),  
Pazhavanthangal PO, Chennai-600114
2. Controllorate of Quality Assurance (Small Arms),  
P.O. Ichapur, Nawabganj,  
Distt. 24 Pargana (North),  
West Bengal-743144

[F. No. 2(1)/98-D(OL-II)]

TAPAN RAY, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 2004

**का.नि.अ. 133.**—केन्द्रीय सरकार, तटरक्षक अधिनियम, 1978 (1978 का 30) की धारा 123 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तटरक्षक (ज्येष्ठता और प्रोन्नति) नियम, 1987 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम तटरक्षक (ज्येष्ठता और प्रोन्नति) (संशोधन) नियम, 2004 है।  
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. तटरक्षक (ज्येष्ठता और प्रोन्नति) नियम, 1987 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 5 में,—  
(i) उपनियम (1) में खंड (ख) से खंड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—  
“(ख) कमांडेंट के रैंक में स्थायी रूप से आमेलित अधिकारियों की ज्येष्ठता, उस तारीख से, जो भारतीय नौसेना में अधिष्ठायी कमांडर के रैंक में की गई पूरी सेवा को ध्यान में रखते हुए नियत की हो, अवधारित की जाएगी।  
(ग) कमांडेंट (कनिष्ठ श्रेणी) के रैंक में स्थायी रूप से आमेलित अधिकारियों की ज्येष्ठता भारतीय नौसेना में दस वर्ष की कमीशन सेवा पूरी होने की तारीख से अवधारित की जाएगी।  
(घ) उप कमांडेंट के रैंक में स्थायी रूप से आमेलित अधिकारियों की ज्येष्ठता भारतीय नौसेना में पांच वर्ष की कमीशन सेवा पूरी होने की तारीख से अवधारित की जाएगी।  
(ङ) सहायक कमांडेंट के रैंक में स्थायी रूप से आमेलित अधिकारियों की ज्येष्ठता भारतीय नौसेना में कमीशन प्राप्त करने की तारीख से अवधारित की जाएगी।”  
(ii) उपनियम (2) में खंड (ग) और खंड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :—  
“(ग) कमांडेंट (कनिष्ठ श्रेणी) :—भारतीय नौसेना में दस वर्ष की कमीशन सेवा के पूरा होने की तारीख।  
(घ) उप कमांडेंट :—भारतीय नौसेना में पांच वर्ष की कमीशन सेवा के पूरा होने की तारीख।  
(ङ) सहायक कमांडेंट :—भारतीय नौसेना में कमीशन प्राप्त करने की तारीख।”
3. उक्त नियमों के नियम 6 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—  
“6. प्रोन्नति के लिए प्राधिकारी :—अधिकारियों की प्रोन्नति के लिए प्राधिकारी केन्द्रीय सरकार या जहां केन्द्रीय सरकार द्वारा महानिदेशक को इस प्रकार सशक्त किया गया है, वहां महानिदेशक होगा।”
4. उक्त नियमों के नियम 7 में, उपनियम (1) से उपनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखे जाएंगे, अर्थात् :—  
“(1) अधिकारी अपनी उन शाखाओं और काडर में जिनके वे हैं, वित्तीय वर्ष के दौरान होने वाली रिक्तियों के विरुद्ध प्रोन्नति के लिए पात्र होंगे।  
(2) उप कमांडेंट और कमांडेंट (कनिष्ठ श्रेणी) के रैंक में अधिकारियों की प्रोन्नति, उपयुक्तता और इन नियमों के सुसंगत उपाबंध में अंतर्विष्ट अपेक्षित अर्हताओं के अधीन रहते हुए, उनकी ज्येष्ठता के आधार पर की जाएगी।  
(3) कमांडेंट और उससे ऊपर के रैंक में अधिकारियों की प्रोन्नति, अपने उस काडर और शाखा में जिनके वे हैं के पात्र अधिकारियों के समूह के भीतर गुणागुण आधारित चयन और इन नियमों के सुसंगत उपाबंध में अंतर्विष्ट अपेक्षित अर्हताओं के अधीन रहते हुए की जाएगी।”

5. उक्त नियमों के नियम-10 के उपनियम (2) के खंड (क) में उप खंड (ii) से उप खंड (iv) के स्थान पर निम्नलिखित उप खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :—

“(ii) उन उप कमांडेंटों की दशा में जो भूतपूर्व नौसेना अधिकारी हैं, उनकी सम्पूर्ण कमीशनड सेवा की कमांडेंट (कनिष्ठ श्रेणी) के रैंक में प्रोन्नति के लिए गणना की जाएगी।

(iii) उन कमांडेंटों (कनिष्ठ श्रेणी) की दशा में, जो भूतपूर्व नौसेना अधिकारी हैं, उनकी सम्पूर्ण कमीशनड सेवा की कमांडेंट के रैंक में प्रोन्नति के लिए गणना की जाएगी।

(iv) उन कमांडेंटों की दशा में, जो भूतपूर्व नौसेना अधिकारी हैं, कमांडर के रैंक में उनकी सम्पूर्ण पूर्ववर्ती सेवा, यदि कोई हो, की उप महानिरीक्षक के रैंक में प्रोन्नति के लिए गणना की जाएगी।

(v) उन उप महानिरीक्षकों की दशा में, जो भूतपूर्व नौसेना अधिकारी हैं, भारतीय नौसेना में कैप्टन के रैंक में पूर्ववर्ती सेवा, महानिरीक्षक के रैंक में प्रोन्नति के लिए पूर्णतः गणना में ली जाएगी।”

6. उक्त नियमों के उपाबंध 1 से 3, के स्थान पर निम्नलिखित उपाबंध रखे जाएंगे, अर्थात् :—

“उपाबंध-1

**प्रोन्नति के लिए अर्हताएं**  
**सामान्य कर्तव्य शाखा अधिकारी (विधि)**

क्रम सं०	अर्हताएं	सहायक कमांडेंट से उप कमांडेंट	उप कमांडेंट से कमांडेंट (कनिष्ठ श्रेणी)	कमांडेंट (कनिष्ठ श्रेणी) से कमांडेंट	कमांडेंट से उपमहानिरीक्षक	उपमहानिरीक्षक से महानिरीक्षक	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. सेवा	06 वर्ष	उप कमांडेंट के रूप में 02 वर्ष सहित कुल 11 वर्ष की सेवा	कमांडेंट (कनिष्ठ श्रेणी) के रूप में 02 वर्ष सहित कुल 15 वर्ष की सेवा	कमांडेंट के रूप में 03 वर्ष सहित कुल 20 वर्ष की सेवा	उपमहानिरीक्षक के रूप में 02 वर्ष सहित कुल 24 वर्ष की सेवा	महानिरीक्षक के पद की प्रोन्नति के लिए अधिकारी की प्रोन्नति की तारीख को 02 वर्ष की अवशिष्ट सेवा होनी चाहिए।	
2. समुद्र समयावधि	01 वर्ष	01 वर्ष	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	अपवादिक परिस्थितियों में महानिदेशक द्वारा समुद्र समयावधि अधित्यक्त की जा सकती है।	
3. तैराकी	हां	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	आधारिक प्रशिक्षण उत्तीर्ण करने के लिए अत्यावश्यक।	

“उपाबंध-2

**प्रोन्नति के लिए अर्हताएं**  
**सामान्य कर्तव्य शाखा अधिकारी**

क्रम सं०	अर्हताएं	सहायक कमांडेंट से उप कमांडेंट	उप कमांडेंट से कमांडेंट (कनिष्ठ श्रेणी)	कमांडेंट (कनिष्ठ श्रेणी) से कमांडेंट	कमांडेंट से उपमहानिरीक्षक	उपमहानिरीक्षक से महानिरीक्षक	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	सेवा	06 वर्ष	उप कमांडेंट के रूप में 02 वर्ष सहित कुल 11 वर्ष की सेवा	कमांडेंट (कनिष्ठ श्रेणी) के रूप में 02 वर्ष सहित कुल 15 वर्ष की सेवा	कमांडेंट के रूप में 03 वर्ष सहित कुल 20 वर्ष की सेवा	महानिरीक्षक के रूप में 02 वर्ष सहित कुल 24 वर्ष की सेवा	महानिरीक्षक के पद की प्रोन्नति के लिए अधिकारी की प्रोन्नति की तारीख को न्यूनतम 02 वर्ष की अवशिष्ट सेवा होनी चाहिए।

(1) (2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2. समुद्र समयावधि	02 वर्ष	01 वर्ष	01 वर्ष	01 वर्ष	01 वर्ष	कमांडेंट के पद की प्रोन्नति के लिए उप कमांडेंट और कमांडेंट (कनिष्ठ श्रेणी) के दो रैंकों में न्यूनतम 02 वर्ष की कुल समुद्र समयावधि होनी चाहिए।
3. तैराकी	हां	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	आधारिक प्रशिक्षण उत्तीर्ण करने के लिए अत्यावश्यक।

## उपाबंध-3

**प्रोन्नति के लिए अर्हताएं**  
**तकनीकी अधिकारी ( इंजीनियरी/विद्युत )**

क्रम सं०	अर्हताएं	सहायक कमांडेंट से उप कमांडेंट	उप कमांडेंट से कमांडेंट (कनिष्ठ श्रेणी)	कमांडेंट (कनिष्ठ श्रेणी) से कमांडेंट	कमांडेंट से उपमहानिरीक्षक	उपमहानिरीक्षक से महानिरीक्षक	टिप्पणी
(1) (2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
1. सेवा	06 वर्ष	उप कमांडेंट के रूप में 02 वर्ष सहित कुल 11 वर्ष की सेवा	कमांडेंट (कनिष्ठ श्रेणी) के रूप में 02 वर्ष सहित कुल 15 वर्ष की सेवा	कमांडेंट के रूप में 03 वर्ष सहित कुल 20 वर्ष की सेवा	उपमहानिरीक्षक के रूप में 02 वर्ष सहित कुल 24 वर्ष की सेवा	महानिरीक्षक के पद की प्रोन्नति के लिए अधिकारी की प्रोन्नति की तारीख को न्यूनतम 02 वर्ष की अवशिष्ट सेवा होनी चाहिए।	
2. समुद्र	02 वर्ष	01 वर्ष	01 वर्ष	01 वर्ष	लागू नहीं	(1) कमांडेंट के रैंक तक के तटरक्षक तकनीकी अधिकारियों को तुलनात्मक योग्यता के आधार पर और सेवा की अत्यावश्यकता के अनुसार समुद्र बिलेटों पर नियुक्त किया जाएगा। (2) अपवादिक परिस्थितियों में महानिदेशक द्वारा समुद्र समयावधि अधिकृत की जा सकती है। (3) कमांडेंट के पद की प्रोन्नति के लिए उप कमांडेंट और कमांडेंट (कनिष्ठ श्रेणी) के दो रैंकों में न्यूनतम 02 वर्ष की कुल समुद्र समयावधि होनी चाहिए।	
3. तैराकी	हां	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	आधारिक प्रशिक्षण उत्तीर्ण करने के लिए अत्यावश्यक।	

[रक्षा मंत्रालय मिशनल सं. ओ एफ/0247/यू एस(पी)/1211/डी(एन-II)]

जी. एस. ओधवासी, अवर सचिव (कार्मिक)

टिप्पणी : मूल नियम भारत के राजपत्र का.नि.आ. 6(अ) तारीख 26 फरवरी 1987 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् का.नि.आ. 98 तारीख 09 जुलाई 1998 तथा का.नि.आ. 86 तारीख 03 अप्रैल 2002 द्वारा, संशोधित किए गए।

New Delhi, the 17th September, 2004

**S.R.O. 133.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 123 of the Coast Guard Act, 1978 (30 of 1978), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Coast Guard (Seniority and Promotion) Rules, 1987, namely :—

1. (1) These rules may be called the Coast Guard (Seniority and Promotion) (Amendment) Rules, 2004.  
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In rule 5 of the Coast Guard (Seniority and Promotion) Rules, 1987 (hereinafter referred to as said rules),—
  - (i) in sub rule (1) for clauses (b) to (d), the following shall be substituted, namely :—
 

“(b) Seniority of permanently absorbed officers in the rank of Commandant shall be determined from the date arrived at after taking into consideration full service in the rank of substantive Commander in the Indian Navy.

(c) Seniority of permanently absorbed officers in the rank of Commandant (Junior Grade) shall be determined from the date of completion of ten years’ commissioned service in the Indian Navy.

(d) Seniority of permanently absorbed officers in the rank of Deputy Commandant shall be determined from the date of completion of five years’ commissioned service in the Indian Navy.

(e) Seniority of permanently absorbed officers in the rank of Assistant Commandant shall be determined from the date of commissioned in the Indian Navy.”;
  - (ii) in sub rule (2), for clauses (c) and (d) the following clauses shall be substituted, namely :—
 

“(c) Commandant (Junior Grade).—Date of completion of ten years commissioned service in the Indian Navy.

(d) Deputy Commandant.—Date of completion of five years commissioned service in the Indian Navy.

(e) Assistant Commandant.—Date of commissioned in the Indian Navy.”
3. For rule 6 of the said rules, the following rule shall be substituted namely :—
 

“6. Authority for promotion.—The authority for promotion of officers shall be the Central Government or the Director General where so empowered by the Central government.”
4. In rule 7 of the said rules, for sub rules (1) to (3), the following sub-rules shall be substituted, namely :—
 

“(1) Officers shall be eligible for promotion against vacancies occurring during a financial year in the respective branches and cadres to which they belong.

(2) The promotion of officers to the ranks of Deputy Commandant and Commandant (Junior Grade) shall be made on the basis of their seniority subject to fitness and possession of requisite qualifications contained in the relevant Annexure to these rules.

(3) The promotion of an officer to the rank of Commandant and above shall be made on relative merit based selection within the eligible batch of officers of his cadre and branch to which he belongs and subject to possession of requisite qualifications contained in the relevant Annexure to these rules.”
5. In rule 10 of the said rules, in sub rules (2), in clause (a), for sub-clauses (ii) to (iv), the following sub-clauses shall be substituted, namely :—
 

“(ii) In the case of Deputy Commandants who are ex-Naval officers, their entire commissioned service shall be counted for promotion to the rank of Commandant (Junior Grade).

(iii) In the case of Commandants (Junior Grade) who are ex-Naval officers, their entire commissioned service shall be counted for promotion to the rank of Commandant.

(iv) In the case of Commandants who are ex-Naval officers, their entire previous service, if any, in the rank of Commander shall be counted for promotion to the rank of Deputy Inspector General.

(v) In the case of Deputy Inspector Generals, who are ex-Naval officers, previous service in the rank of Captain, Indian Navy, shall be counted in full for promotion to the rank of Inspector General.”

2781 95/04-2

6. In the said rules, for Annexures 1 to 3, the following Annexures shall be substituted, namely :—

**Annexure 1****Qualifications for Promotion****OFFICERS GENERAL DUTY BRANCH (LAW)**

Serial Number	Qualifications	Assistant Commandant to Deputy Commandant	Deputy Commandant to Commandant (Junior Grade)	Commandant (Junior Grade) to Commandant	Commandant to Deputy Inspector General	Deputy Inspector General to Inspector General	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Service	6 Years	2 Years as Deputy Commandant with total 11 years service	2 Years as Commandant (Junior Grade) with total 15 years service	3 Years as Commandant with total 20 years service	2 Years as Deputy Inspector General with total 24 years of service	For promotion to the rank of Inspector General the Officer should have 2 years residual service on the date of promotion.
2.	Sea Time	1 Year	1 Year	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Sea time may be waived by Director-General in exceptional circumstances.
3.	Swimming	Yes	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Essential for passing basic training.

**Annexure 2****Qualifications for Promotion****OFFICERS GENERAL DUTY BRANCH**

Serial Number	Qualifications	Assistant Commandant to Deputy Commandant	Deputy Commandant to Commandant (Junior Grade)	Commandant (Junior Grade) to Commandant	Commandant to Deputy Inspector General	Deputy Inspector General to Inspector General	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Service	6 Years	2 Years as Deputy Commandant with total 11 years service	2 Years as Commandant (Junior Grade) with total 15 years service	3 Years as Commandant with total 20 years service	2 Years as Deputy Inspector General with total 24 years of service	An officer on the date of promotion to the rank of Inspector General should have minimum 2 years residual service.
2.	Sea Time	2 Years	1 Year	1 Year	1 Year	1 Year	The aggregate sea time in the two ranks of Deputy Commandant and Commandant (Junior Grade) should be a minimum of 2 years for eligibility of promotion to Commandant.
3.	Swimming	Yes	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Essential for passing basic training.

## Annexure 3

## Qualifications for Promotion

## OFFICERS TECHNICAL (ENGINEERING/ELECTRICAL)

Serial No.	Qualifications	Assistant Commandant to Deputy Commandant	Deputy Commandant to Commandant (Junior Grade)	Commandant (Junior Grade) to Commandant	Commandant to Deputy Inspector General	Deputy Inspector General to Inspector General	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Service	6 Years	2 Years as Deputy Commandant with total 11 years service	2 Years as Commandant (Junior Grade) with total 15 years service	3 Years as Commandant with total 20 years service	2 Years as Deputy Inspector General with total 24 years of service	An officer on the date of promotion to the rank of Inspector General should have minimum 2 years residual service.
2.	Sea Time	2 Years	1 Year	1 Year	1 Year	Not applicable	(1) Coast Guard Technical Officers upto the rank of Commandant shall be appointed to sea billets on comparative merit and as per service exigencies. (2) Sea time may be waived in exceptional circumstances by Director-General. (3) The aggregate sea time in the two ranks of Deputy Commandant and Commandant (Junior Grade) should be a minimum of 2 years for eligibility of promotion to Commandant.
3.	Swimming	Yes	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Essential for passing basic training.

[MoD ID No. OF/0247/US(Pers)/1211/D(N-II)]  
G. S. AUDHKHASI, Under Secy. (Pers)

**Note :** The Principal rules were published in the Gazette of India, vide SRO 6(E) dated 26 Feb 1987 and were subsequently amended vide SRO 98 dated 09 July 1998 and SRO 86 dated 03 Apr. 2002.